



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351]
No. 351]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/श्रावण 26, 1904
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1982

क्रा० आ० 583 (अ).—भूमिगत रेल (संक्रम) निर्माण अधिनियम, 1978 की धारा 21(1)(ख) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

यतः केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक है कि कलकत्ता में भूमिगत (मेट्रो) रेलवे के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित सभी इमारतों का, जो भूमिगत संरक्षण के ऊपर अथवा उसके किसी भी तरफ 20 मीटर के भीतर स्थित हों, अस्थायी रूप से खाली कराने का निदेश दिया जाय, अतः एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची में निर्दिष्ट परिमरों में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार और आश्रितों सहित जो इन परिमरों में रह रहे हों, साथ ही यदि कोई जल सम्पत्ति अथवा पशु, जो उनकी अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे में हो तो उसके सहित, उक्त इमारत का खाली कर दें।

प्रभावित व्यक्तियों को ऐसा अस्थायी वैकल्पिक स्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे, निःशुल्क उपलब्ध कराने की अथवा एक ऐसी धनराशि का, जो सरकार की राय में वैकल्पिक स्थान को प्राप्त के लिए पर्याप्त है, भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कार्यकारी इंजीनियर, सी एस-4 भूमिगत रेलवे से जो इस प्रयोजन के लिए महाप्रबन्धक, भूमिगत रेलवे के प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं, सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यह निष्क्रमण कर देना चाहिए—

(क) भूमिगत रेलवे कलकत्ता से अस्थायी तौर पर कोई निर्दिष्ट अस्थायी वैकल्पिक स्थान निःशुल्क ग्रहण करने के लिए, अथवा

(ख) अस्थायी वैकल्पिक स्थान खरीदने के लिए भूमिगत रेलवे कलकत्ता से निर्दिष्ट धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार की राय में पर्याप्त हो, प्राप्त करने के लिए अपने आप को पेश करने के लिए।

अनुसूची

इमारत परिसर सं०	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	निर्देशन
1	2	3
11. 14ए, भैंरव मुखर्जी लेन, कलकत्ता	1. सतीश मल्लिक 2. रमाशंकर भट्टाचार्य 3. अमिया बसाक 4. बलाई बोस 5. कंकर राय 6. अजिन राय 7. विजय कुमार दत्ता 8. सुधा रानी बेबी	प्रत्येक मामले में निष्क्रमण (खाली करने) की वास्तविक तारीख से लगभग 6 महीने की अवधि के लिए सभी जल संपत्ति और / अथवा सभी पशुओं सहित सभी व्यक्तियों का उपर बताये अनुसार निष्क्रमण।

[क्रा० सं० 81 /एम०टी०पी० /सी०/एल० ए /92]

हिस्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड
पवन संयुक्त सचिव, भारत सरकार, रेल मंत्रालय

**MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 583(E).—Notifications under Section 21(1)(b) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

Whereas the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to direct temporary evacuation of all buildings, described in the schedule below, which are above or within 20 metres on either side of the metro alignment, it is hereby directed that the persons, living in the premises mentioned in the schedule below along with their family and dependents, as residing in these premises, together with any movable property or animal that may be in their custody, control, or possession shall evacuate the said building

Arrangement has been made to provide the affected persons with such temporary alternative accommodation, free of cost, as considered suitable by the Central Government or to pay an amount which in its opinion is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

Such evacuation shall be done by every affected person within thirty days from the date of receipt of intimation sent to him by the Executive Engineer CS-4, Metro Railway, who is the authorised representative of the General Manager, Metro Railway for this purpose—

- (a) for taking over temporarily a specific temporary alternative accommodation free of cost from the Metro Railway, Calcutta, or

- (b) for presenting himself to receive from the Metro Railway, Calcutta, a specific amount, which in the opinion of Central Government is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

SCHEDULE

Building/Premises No.	Name of the affected persons	Directions
1	2	3
11. 14A, Bhairab Mukherjee Lane, Calcutta	1. Santosh Malakar 2. Ramsankar Bhattacharya 3. Amiya Basak 4. Balai Bose 5. Kankar Roy 6. Ajit Roy 7. Bijoy Kr. Dutta 8. Sudha Rani Debi	Evacuation of all persons together with any movable property and/o. any animal as described above for a period of six months ap- proximately from the actual date of eva- cuation in each individual case.

[Case No. 81/MTP/C/LA/92]

HIMMAT SINGH, Secy.

Railway Board

Secretary to the Govt. of India
Ministry of Railway